



ऑनलाइन EAL/D पात्रता आवेदन जांच-सूची

अतिरिक्त भाषा या बोली (English as an Additional Language or Dialect - EAL/D) ATAR कोर्स के तौर पर कक्षा 12 अंग्रेजी में भर्ती होने के लिए, आपके लिए यह ज़रूरी है कि आप स्टूडेंट पोर्टल:

<https://studentportal.scsa.wa.edu.au> के माध्यम से School Curriculum and Standards Authority (एथॉरिटी) को ऑनलाइन EAL/D पात्रता आवेदन जमा करें।

इस जांच-सूची का प्रयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करें कि अपना आवेदन शुरू करने से पहले आपके पास अपने लिए ज़रूरी सब कुछ है।

अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा करने के लिए, आपको घर या स्कूल में एक कंप्यूटर का प्रयोग करने की ज़रूरत होगी। यदि आपके कोई सवाल हैं, तो अपने माता-पिता या EAL/D टीचर से आपकी मदद करने के लिए कहें।

स्टूडेंट पोर्टल में लॉग-इन करना

स्टूडेंट पोर्टल में लॉग-इन करने के लिए, आपको अपने **WA स्टूडेंट नंबर** की आवश्यकता होगी जो आपको अपनी स्कूली रिपोर्ट या अपने SmartRider में मिलेगा। आपको **व्यक्तिगत ई-मेल पते** की भी ज़रूरत होगी। अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा करते समय यह ज़रूरी है कि आप अपने निजी ई-मेल पते को एक्सेस कर सकें।

आवासीय जानकारी

आपको निम्नलिखित विवरण प्रदान करने की ज़रूरत होगी:

- उस देश का नाम जहाँ जन्म हुआ
- आपके ऑस्ट्रेलिया आगमन करने की दिनांक
- उस देश का नाम जहाँ जन्म हुआ - माता और पिता (या देखरेखकर्ता)
- उन देशों के नाम जहाँ आप रहे/रही हैं
- राष्ट्रियता
- वे भाषाएँ जिन्हें आप घर पर बोलते हैं

शैक्षिक पृष्ठभूमि

सुनिश्चित करें कि आपके पास निम्न विवरण हैं:

- किंडरगार्टन से लेकर हर साल स्कूली शिक्षा के लिए आपने जिस स्कूल में भाग लिया, उस स्कूल के विवरण:
 - स्कूल का नाम
 - उस देश का नाम जहाँ स्कूल स्थित है
 - वे कैलेंडर साल जिनमें आप स्कूल गए थे
 - इंटरनेशनल स्कूल स्टेट्स
 - स्कूल में शिक्षा के लिए प्रयोग की जाने वाली मुख्य भाषा
 - कितने प्रतिशत शिक्षा अंग्रेजी में प्रदान की जाती थी
- उन कक्षाओं के लिए स्कूली रिपोर्ट जिनकी पढ़ाई आपने ऑस्ट्रेलिया के बाहर की थी

सहायक दस्तावेज़

आपको निम्नलिखित दस्तावेज़ की फोटो लेनी या इन्हें स्कैन करना होगा:

- पासपोर्ट में पहचान वाला पृष्ठ
- एंट्री स्टेम्प की दिनांक या वीज़ा या
- इंटरनेशनल मूवमेंट रिकॉर्ड
- स्कूल की रिपोर्ट/टै

अपने सहायक दस्तावेज़ अपने कंप्यूटर या मोबाइल उपकरण पर सेव करें जैसे कि **.pdf, .jpg, .jpeg or .png** फाइलें, **हर फाइल के लिए अधिकतम साइज 4MB** | **Word** दस्तावेज़ स्वीकार **नहीं** किए जाएँगे।